

千光眼觀自在菩薩祕密法經

【2012 年修正版】

我是第一義，本來自清淨，筏喻於諸法，能得勝清淨。今遊諸世界，破二十五有。唯願聽我說，秘密陀羅尼：

oṃ, vajra-dharma vi-śuddha padma-sattva hita  
唵 哇积喇<sub>(合、彈)</sub>-它勒<sub>(彈)</sub>吗<sub>(合)</sub> 微-修塔 巴得吗<sub>(合)</sub>-萨得哇<sub>(合)</sub> 嘿<sub>(黑衣反)</sub> 达

spharaṇa svāhā.  
斯帕<sub>(合)</sub>喇<sub>(彈)</sub>拿<sub>(卷)</sub> 斯哇<sub>(合、引)</sub> 哈<sub>(引)</sub>

ॐ वज्रधर्मविशुद्धपद्मसत्त्वहिता

【1】若人欲得富饒財寶者，應修摩尼珠法。

oṃ, vajra-dharma cintāmaṇi ratna varade svāhā.  
唵 哇积喇<sub>(合、彈)</sub>-它勒<sub>(彈)</sub>吗<sub>(合)</sub> 进达<sub>(引)</sub> 吗尼<sub>(卷)</sub> 喇<sub>(彈)</sub>得拿<sub>(合)</sub> 哇喇<sub>(彈)</sub> 嚩 斯哇<sub>(合、引)</sub> 哈<sub>(引)</sub>

ॐ वज्रधर्मचिन्तामणिर्त्नवरदेस्वाहा

【2】若人欲得安穩者，應修絹索法。

oṃ, vajra-dharma padma-pāśa adhiṣṭhitā  
唵 哇积喇<sub>(合、彈)</sub>-它勒<sub>(彈)</sub>吗<sub>(合)</sub> 巴得吗<sub>(合)</sub>-巴<sub>(引)</sub> 霞 阿提施<sub>(卷)</sub> 提<sub>(合、卷)</sub> 达<sub>(引)</sub>

svasty-ayanam svāhā.  
斯哇<sub>(合)</sub>-斯滴<sub>(合)</sub> 阿呀囊 斯哇<sub>(合、引)</sub> 哈<sub>(引)</sub>

ॐ वज्रधर्मपद्मपाशाधिष्ठिता

【3】若人欲療腹中病者，應修寶砵法。

oṃ, vajra-dharma pātra, udara-śūlaṃ  
唵 哇积喇<sub>(合、彈)</sub>-它勒<sub>(彈)</sub>吗<sub>(合)</sub> 巴<sub>(引)</sub> 得喇<sub>(合、彈)</sub> 乌达喇<sub>(彈)</sub>-修<sub>(引)</sub> 浪

cikitsanāya svāhā.  
积唧<sub>(闍衣反)</sub> 得萨<sub>(合)</sub> 拿<sub>(引)</sub> 呀 斯哇<sub>(合、引)</sub> 哈<sub>(引)</sub>

ॐ वज्रधर्मपात्रउदरशूलचिकित्सायस्वाहा

【4】若人欲降伏魍魎鬼神者，應修寶劍法。

oṃ, vajra-dharma khadga, sarva graha  
唵 哇积喇<sub>(合、彈)</sub>-它勒<sub>(彈)</sub>吗<sub>(合)</sub> 咖得<sub>(卷)</sub> 嘎<sub>(合)</sub> 萨勒<sub>(彈)</sub> 哇<sub>(合)</sub> 格喇<sub>(合、彈)</sub> 哈

sphoṭāya svāhā.  
斯剖<sub>(合)</sub> 达<sub>(卷、引)</sub> 呀 斯哇<sub>(合、引)</sub> 哈<sub>(引)</sub>

ॐ वज्रधर्मखड्गसर्वग्राहस्फोटीयस्वाहा

【5】 若人欲降伏大魔神者，當修縛日羅法。

oṃ, hṛ vajrapāṇi māra pra-mardanāya  
唵 诃里<sub>(合、卷)</sub> 哇积喇<sub>(合、弹)</sub> 巴<sub>(引)</sub> 尼<sub>(卷)</sub> 吗<sub>(引)</sub> 喇<sub>(弹)</sub> 波喇<sub>(合、弹)</sub>-吗勒<sub>(弹)</sub> 达<sub>(合)</sub> 拿<sub>(引)</sub> 呀  
svāhā.  
斯哇<sub>(合、引)</sub> 哈<sub>(引)</sub>

ॐ ह्र वज्रपाणि मारा प्रमर्दानाय  
स्वाहा

【6】 若人為摧怨敵者，應修金剛杵法。

oṃ, hṛ vajrapāṇi sarva śatru sphaṭāya  
唵 诃里<sub>(合、卷)</sub> 哇积喇<sub>(合、弹)</sub> 巴<sub>(引)</sub> 尼<sub>(卷)</sub> 萨勒<sub>(弹)</sub> 哇<sub>(合)</sub> 霞得嚕<sub>(合、弹)</sub> 斯剖<sub>(合)</sub> 达<sub>(卷、引)</sub> 呀  
svāhā.  
斯哇<sub>(合、引)</sub> 哈<sub>(引)</sub>

ॐ ह्र वज्रपाणि सर्वा शत्रु स्फाटाय  
स्वाहा

【7】 若人欲離怖畏者，應修施無畏法。

oṃ, vajra-dharma abhayaṃ-dada, sarvatra bhaya jina  
唵 哇积喇<sub>(合、弹)</sub>-它勒<sub>(弹)</sub> 吗<sub>(合)</sub> 阿帕阳-达达 萨勒<sub>(弹)</sub> 哇<sub>(合)</sub>-得喇<sub>(合、弹)</sub> 帕呀 积拿  
nāsāya svāhā.  
拿<sub>(引)</sub> 霞<sub>(引)</sub> 呀 斯哇<sub>(合、引)</sub> 哈<sub>(引)</sub>

ॐ वज्रधर्म अभयं ददा सर्वत्र भय जिनाय  
स्वाहा

【8】 若人眼闇欲求光明者，應修日摩尼法。

oṃ, vajra-dharma āditya, jvalane cakṣuḥ  
唵 哇积喇<sub>(合、弹)</sub>-它勒<sub>(弹)</sub> 吗<sub>(合)</sub> 阿<sub>(引)</sub> 低滴呀<sub>(合)</sub> 积哇<sub>(合)</sub> 拉内 加格殊<sub>(卷)</sub> 赫<sub>(合、止)</sub>  
svāhā.  
斯哇<sub>(合、引)</sub> 哈<sub>(引)</sub>

ॐ वज्रधर्म आदित्या ज्वालने चक्षुष्य  
स्वाहा

【9】 若人欲消除一切熱惱者，應修月摩尼法。

oṃ, vajra-dharma candra, sarva dāha  
唵 哇积喇<sub>(合、弹)</sub>-它勒<sub>(弹)</sub> 吗<sub>(合)</sub> 坚得喇<sub>(合、弹)</sub> 萨勒<sub>(弹)</sub> 哇<sub>(合)</sub> 达<sub>(引)</sub> 哈  
pra-śamanāye svāhā.  
波喇<sub>(合、弹)</sub>-霞<sub>(引)</sub> 吗拿<sub>(引)</sub> 耶 斯哇<sub>(合、引)</sub> 哈<sub>(引)</sub>

ॐ वज्रधर्म चन्द्रा सर्वा दाहाय  
स्वाहा

【10】 若人欲增榮官職者，當修寶弓法。

oṃ, vajra-dharma kāṇḍa-dhanur, artha-saṃpādane

唵 哇积喇(合、弹)-它勒(弹)吗(合) 甘(卷、引)达(卷)-它奴勒(弹、半) 阿勒(弹)它(合)-三巴(合)达内  
svāhā.

斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मकाण्डधनुः अर्थसंपादन

【11】 若人欲得善友者，當修寶箭法。

oṃ, vajra-dharma ratna-kāṇḍa, kalyāna-mitra

唵 哇积喇(合、弹)-它勒(弹)吗(合) 喇(弹)得拿(合)-甘(卷、引)达(卷) 嘎利呀(合、引)那-弥得喇(合、弹)  
ehyehi lābha svāhā.

诶嘿(黑衣反)耶(合)嘿(黑衣反)拉(引)帕 斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मरत्नाकाण्डकल्याणमित्र

【12】 若人欲消除身上眾病者，當修楊柳枝藥法。

oṃ, vajra-dharma vetasa, sarva roga pra-samanāya

唵 哇积喇(合、弹)-它勒(弹)吗(合) 微达萨 萨勒(弹)哇(合) 喽(弹)嘎 波喇(合、弹)-霞吗拿(引)呀  
svāhā.

斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मवेतससर्वरोगप्रसामनाय

【13】 若人欲解脫一切障難者，當修白拂法。

oṃ, vajra-dharma śukla-vāla-vyajana, sarva

唵 哇积喇(合、弹)-它勒(弹)吗(合) 修格拉(合)-哇(引)拉-微呀(合)加呐 萨勒(弹)哇(合)  
māra-vighna vimukti svāhā.

吗(引)喇(弹)-微克拿(合) 微目格滴(合) 斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मशुक्लवालव्यजनसर्वविघ्नविमुक्ति

【14】 若人欲求善和眷屬者，當修胡瓶法。

oṃ, vajra-dharma ghaṭa, kalyāṇa pari-vāraṃ

唵 哇积喇(合、弹)-它勒(弹)吗(合) 伽达(卷) 嘎利呀(合、引)呐(卷) 巴哩(弹)-哇(引)啞(引)  
svāhā.

斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मघटकल्याणपरिवार

【15】 若人欲辟除一切惡獸者，當修榜排法。

oṃ, vajra-dharma phara, sarva vṛścika sarpa

唵 哇积喇(合、弹)-它勒(弹)吗(合) 帕喇(弹) 萨勒(弹)哇(合) 乌里(合、卷)-悉积(合)嘎 萨勒(弹)巴(合)

nakula siṃha vyāghra ṛkṣa tarakṣa mṛga,  
 拿古拉 星哈 微呀<sub>(合、引)</sub>-克喇<sub>(合、彈)</sub> 里<sub>(卷)</sub>格沙<sub>(合、卷)</sub> 达喇<sub>(彈)</sub>格沙<sub>(合、卷)</sub> 么里<sub>(合、卷)</sub>嘎  
 svad para-jīva huṃ phaṭ svāhā.  
 斯哇<sub>(合)</sub>得<sub>(半)</sub> 巴喇<sub>(彈)</sub>-积<sub>(引)</sub>哇 吽 泮<sub>(急呼)</sub> 斯哇<sub>(合、引)</sub>哈<sub>(引)</sub>

ॐ वक्रवर्धन इति वृषभस्यै नमः ॥ १६ ॥

【16】 若人欲離官難者，應修鉞斧法。

oṃ, vajra-dharma paraśu, rāja-bhaya vi-mukti svāhā.  
 唵 哇积喇<sub>(合、彈)</sub>-它勒<sub>(彈)</sub>吗<sub>(合)</sub> 巴喇<sub>(彈)</sub>修 喇<sub>(彈、引)</sub>加-帕呀 微-目格滴<sub>(合)</sub> 斯哇<sub>(合、引)</sub>哈<sub>(引)</sub>

ॐ वक्रवर्धन इति वृषभस्यै नमः ॥ १७ ॥

【17】 若人欲求男女僕使者，當修玉環法。

oṃ, vajra-dharma kuṇḍalā, ceṭa-ceṭī labdha  
 唵 哇积喇<sub>(合、彈)</sub>-它勒<sub>(彈)</sub>吗<sub>(合)</sub> 滾<sub>(卷)</sub>达<sub>(卷)</sub>拉<sub>(引)</sub> 皆达<sub>(卷)</sub>-皆滴<sub>(卷、引)</sub> 拉波它<sub>(合)</sub>  
 svāhā.  
 斯哇<sub>(合、引)</sub>哈<sub>(引)</sub>

ॐ वक्रवर्धन इति वृषभस्यै नमः ॥ १८ ॥

【18】 若人欲成就功德者，當修白蓮法。

oṃ, vajra-dharma puṇḍarīkā, sarva  
 唵 哇积喇<sub>(合、彈)</sub>-它勒<sub>(彈)</sub>吗<sub>(合)</sub> 崩<sub>(卷)</sub>达<sub>(卷)</sub>哩<sub>(彈、引)</sub>嘎<sub>(引)</sub> 萨勒<sub>(彈)</sub>哇<sub>(合)</sub>  
 puṇya-kriyā siddhā svāhā.  
 布尼<sub>(卷)</sub>呀<sub>(合)</sub>-格哩<sub>(合、彈)</sub>呀<sub>(引)</sub> 悉汤<sub>(引)</sub> 斯哇<sub>(合、引)</sub>哈<sub>(引)</sub>

ॐ वक्रवर्धन इति वृषभस्यै नमः ॥ १९ ॥

【19】 若人欲往生十方淨土者，當修青蓮法。

oṃ, vajra-dharma nīla-padma, siddhā ud-gata  
 唵 哇积喇<sub>(合、彈)</sub>-它勒<sub>(彈)</sub>吗<sub>(合)</sub> 尼<sub>(引)</sub>拉-巴得吗<sub>(合、引)</sub> 悉它<sub>(引)</sub> 乌得<sub>(半)</sub>-嘎达  
 buddha-viṣayaṃ svāhā.  
 布塔-微沙<sub>(卷)</sub>阳 斯哇<sub>(合、引)</sub>哈<sub>(引)</sub>

ॐ वक्रवर्धन इति वृषभस्यै नमः ॥ २० ॥

【20】 若人欲求智慧者，應修寶鏡法。

oṃ, vajra-dharma ādarśa, mahā-jñāna siddhā  
 唵 哇积喇<sub>(合、彈)</sub>-它勒<sub>(彈)</sub>吗<sub>(合)</sub> 阿<sub>(引)</sub>达勒<sub>(彈)</sub>霞<sub>(合)</sub> 吗哈<sub>(引)</sub>-积娘<sub>(合、引)</sub>拿 悉它<sub>(引)</sub>  
 svāhā.  
 斯哇<sub>(合、引)</sub>哈<sub>(引)</sub>





oṃ, vajra-dharma jñāna-mudrā, viśva-jñāna

唵 哇积喇(合、彈)-它勒(彈)吗(合) 积娘(合、引)拿-目得喇(合、彈、引) 微西哇(合)-积娘(合、引)拿  
mahā-sarasvatī svāhā.

吗哈(引)-萨喇(彈)斯哇(合)滴(引) 斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मज्ञानमुद्रा विश्वज्ञान

【32】 若人欲龍天善神來加護者，應修鐵鉤法。

oṃ, vajra-dharma aṅkuśa-jyā, sarva deva nāga

唵 哇积喇(合、彈)-它勒(彈)吗(合) 昂古霞-积呀(合、引) 萨勒(彈)哇(合) 嚶哇 拿(引)嘎  
rakṣa māṃ svāhā.

喇(彈)格沙(合、卷) 忙(引) 斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मअङ्कुशज्या सर्वा देवनागा

【33】 若人欲求慈悲心者，應修錫杖法。

oṃ, vajra-dharma khakkhara, samaya mahā-kāruṇika

唵 哇积喇(合、彈)-它勒(彈)吗(合) 咖咖喇(彈) 萨吗呀 吗哈(引)-嘎(引)嚶(彈)尼(卷)嘎  
svāhā.

斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मखक्खरा समय महाकरुणिका

【34】 若人欲求人愛者，當修合掌法。

oṃ, vajra-dharma añjali, siddha vaśī-karaṇa svāhā.

唵 哇积喇(合、彈)-它勒(彈)吗(合) 安加利 悉它 哇西(引)-嘎喇(彈)拿(卷) 斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मअंजलि सिद्धा वासीकरणा

【35】 若人欲不離諸佛邊者，應修化佛法。

oṃ, vajra-dharma nirmāna-buddha, siddhā pāramitā

唵 哇积喇(合、彈)-它勒(彈)吗(合) 尼勒(彈)吗(合、引)拿-布塔 悉它(引) 巴(引)喇(彈)弥达(引)  
svāhā.

斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मनिर्मानबुद्धा सिद्धा पारमिता

【36】 若人於來世不欲處胞胎身者，當修宮殿法。

oṃ, vajra-dharma bhavana, sarva apāya-garbha-jahāya

唵 哇积喇(合、彈)-它勒(彈)吗(合) 帕哇拿 萨勒(彈)哇(合) 阿巴(引)呀-嘎勒(彈)帕(合)-加哈(引)呀  
svāhā.

斯哇(合、引)哈(引)

ॐ वज्रधर्मवज्रसर्वप्रथमसूत्रसूत्र

【37】 若人欲求多聞者，應修般若經法。

om, vajra-dharma prajñā pāramitā sūtram,  
唵 哇积喇(合、彈)-它勒(彈)吗(合) 波喇(合、彈)-积娘(合、引) 巴(引) 喇(彈) 弥达(引) 修(引)得啞(合、彈)  
śruta-paryavāpti svāhā.  
悉嚕(合、彈)达-巴哩(彈)呀(合) 哇(引)波滴(合) 斯哇(合、引) 哈(引)

ॐ वज्रधर्मसूत्रसूत्रसूत्रसूत्रसूत्रसूत्र

【38】 若人欲求菩提心不退者，當修不退轉金輪法。

om, vajra-dharma hema-cakra-acyuta, siddha bodhi-cittam  
唵 哇积喇(合、彈)-它勒(彈)吗(合) 黑吗-加格喇(合、彈)-阿积由(合)达 悉它 啞(布割反) 提-积当  
svāhā.  
斯哇(合、引) 哈(引)

ॐ वज्रधर्मसूत्रसूत्रसूत्रसूत्रसूत्रसूत्र

【39】 若人欲得一切如來灌頂授記者，應修頂上化佛法。

om, vajra-dharma abhiṣiñca māṃ, pratī-ccha buddha  
唵 哇积喇(合、彈)-它勒(彈)吗(合) 阿皮辛(卷)加 忙(引) 波喇(合、彈)滴-恰 布塔  
vyākaraṇe svāhā.  
微呀(合、引) 嘎喇(彈) 内(卷) 斯哇(合、引) 哈(引)

ॐ वज्रधर्मसूत्रसूत्रसूत्रसूत्रसूत्रसूत्र

【40】 若人欲得成就五穀等一切食物者，應修葡萄手法。

om, vajra-dharma drākṣā, siddhā ut-sade  
唵 哇积喇(合、彈)-它勒(彈)吗(合) 得喇(合、彈、引)-格沙(合、卷、引) 悉它(引) 乌得(半)-萨得  
sarva sasya svāhā.  
萨勒(彈) 哇(合) 萨悉呀(合) 斯哇(合、引) 哈(引)

ॐ वज्रधर्मसूत्रसूत्रसूत्रसूत्रसूत्रसूत्र

【41】 千眼印真言一出《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經》卷上一別本一唐一智通譯一《大正新修大藏經》第二十一卷第九二頁上。

om, sarva cakṣur-grahya dhāraṇy  
唵 萨勒(彈) 哇(合) 加格殊(合、卷) 勒(彈、半)-格喇(合、彈)-嘿(黑衣反) 呀 它(引) 喇(彈) 尼(卷)  
indriya svāhā.  
因得哩(合、彈、引) 呀 斯哇(合、引) 哈(引)

ॐ वज्रधर्मसूत्रसूत्रसूत्रसूत्रसूत्रसूत्र

